



1008



शुद्धक सोय नाग उपाय चालना

सर्वे सार्वे सार्वे सार्वे

सर्वे सार्वे सार्वे सार्वे

सर्वे सार्वे सार्वे सार्वे

सर्वे सार्वे सार्वे सार्वे

सर्वे सार्वे सार्वे सार्वे

सर्वे सार्वे सार्वे सार्वे

सर्वे सार्वे सार्वे सार्वे

सर्वे सार्वे सार्वे सार्वे

सर्वे सार्वे सार्वे सार्वे

सर्वे सार्वे सार्वे सार्वे

सर्वे सार्वे सार्वे सार्वे

सर्वे सार्वे सार्वे सार्वे

सर्वे सार्वे सार्वे सार्वे

सर्वे सार्वे सार्वे सार्वे

सर्वे सार्वे सार्वे सार्वे

सर्वे सार्वे सार्वे सार्वे

सर्वे सार्वे सार्वे सार्वे

सर्वे सार्वे सार्वे सार्वे

सर्वे सार्वे सार्वे सार्वे

सर्वे सार्वे सार्वे सार्वे

सर्वे सार्वे सार्वे सार्वे


सर्वे सार्वे सार्वे सार्वे

सर्वे सार्वे सार्वे सार्वे


सर्वे सार्वे सार्वे सार्वे

सर्वे सार्वे सार्वे सार्वे


सर्वे सार्वे सार्वे सार्वे





(८) श्रीरामायः रामक पद विरचयः मधुसूतः । श्रीरामायः १०५ भागः पचासः



द प्रसूत स्थानों, पर्वतों, नदियों एवं सरोवरोंका माहात्म्य तथा श्रीरामके घन-गमन प




1007




मे भगवान् भीरम और भगवती भीतीलाके
के कीर्तनालीय आनयों विगतों पर भक्तोंके
भीर
भीर
दरिद्रों
नरिक्त
हसमें
साहा



पि दुर्लभ रत्नका जडका वीर भगवत आरामके
एव भीरामभक्तके सुन्दर और रोचक आरुमा





(२) 'भारतमाहा' नामक पद्य प्रकृतम्
मावेद्य ह्य एक ही अक्षरों ही श्रुतों व

विद्युत्
। श्री
तत्पर
इमे ४
। है।
ले प्र
समके
भारुभा
सरोव
। है।
मन्त्र
वांशी
वर्ष
मुन
तन ५
तमरु
माभ्या
नर ६
विद्युत्
। श्री
तत्पर
इमे ४
। है।
ले प्र
समके

(५) 'भारतमाहा' नामक पद्य प्रकृतम्
ह प्रकृत स्थानों, पर्वतों, नदियों एवं सरोव



1005



प्रायः एक ही अङ्गमें ही सफला कठिन धा, अता करवरी और मार्ग माखे
भी प्रथमः प्रथम और वितीय परिशिष्टाणके रूपमें प्रकटित हंस। दोनों परिशिष्ट
अङ्गको
वत्त,
नी मह
आदि
शिरार
य इस
य थी

शिरार
य इस
क भ
मदि
य श्रीरामभक्तिके सुन्दर और रोचक आख्यान भी इसमें विद्यमान है। भगवान् श्रीरामकी
प्रहस्य सानों, पर्वतों, नदियों एवं सरोवरोंका माहात्म्य तथा श्रीरामके वन-गमन ए

भारतमात्रेणैव हि संसारो भवति । भारतमात्रेणैव हि संसारो भवति । भारतमात्रेणैव हि संसारो भवति ।



1001




1002



1005



1006



1003



1004



1007



1008

भारतमात्रेणैव हि संसारो भवति । भारतमात्रेणैव हि संसारो भवति । भारतमात्रेणैव हि संसारो भवति ।